



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्र विचार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

० 277] नई दिल्ली, बुधवार, दिसंबर 14, 1972/अग्राहय 3, 1894
a. 277] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 1972/AGRAHAYA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ रख्या वी जाती है जिससे कि यह प्रलग सकलन के रूप में रखा जा सके :

Separate paglug is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)
PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 14th December 1972

No. DRAWBACK/PN-94/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971—(Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette India, Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes following further amendments in the table published in the Public Notice No. Drawback/PN-94/72 dated the 15th October, 1971 with immediate effect :—

(1) In Sub-Serial No. 2502, under Category (A), for items (b) and (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

- | | |
|--|---|
| (b) Content of polyester fibre of 2 deniers or less. | Rs. 40.59 (Rupees forty and paise fifty nine only) per kg. |
| (c) Content of polyester fibre of more than 2 deniers. | Rs. 35.20 (Rupees thirty five and paise twenty only) per kg." |

(2) In Sub-Serial No. 2503, under Category (C)(i) for items (a) and (b) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

- | | |
|---|--|
| (a) Polyester fibre of not more than 2 deniers. | Rs. 42.32 (Rupees forty two and paise thirty two only) per kg. |
| (b) Polyester fibre of more than 2 deniers. | Rs. 36.69 (Rupees thirty six and paise sixty nine only) per kg." |

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 94/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नयमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ० के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एम्ब द्वारा तत्काल निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है:—

(1) उप-क्रमांक सं० 2502 में वर्ग (क) के अन्तर्गत मद (ख) एवं (ग) तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

- “(ख) 2 डैनियर्स अथवा उससे कम के पोलि- 40.59 रुपये (केवल चालीस रुपये एस्टर तन्तु की अन्तर्वस्तु। तथा उन 15 पैसे) प्रति किलोग्राम।
- (ग) 2 डैनियर्स से अधिक के पोलिएस्टर तन्तु 35.20 रुपये (केवल पैंतीस रुपये तथा बीस पैसे) प्रति किलोग्राम।”

(2) उप-क्रमांक सं० 2503 में वर्ग (ग) (.) के अन्तर्गत मद (क) एवं (ग) तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

- “(क) 2 डैनियर्स से अधिक का पोलिएस्टर 42.32 रुपये (केवल बरालीस रुपये तन्तु। तथा बत्तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
- (ख) 2 डैनियर्स से अधिक का पोलिएस्टर 36.69 रुपये (केवल छत्तीस रुपये तथा उनहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।”

No. DRAWBACK/PN-95/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub-Serial No. 1925—1928 and the entries relating thereto the following shall be substituted with immediate effect:—

Sub-Serial No.	Description of goods.	Rate of drawback.
1	2	3
1925	Spectacle frames/spectacles and sun goggles, made from cellulose nitrate sheets with or without lenses/glare glasses and whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets, shields, joints, wire in sides.	25.2% (Twenty five point two percent only) of the FOB value.

2

3

1926	Spectacle frames/spectacles and sun goggles with or without lenses/glare glasses made from cellulose nitrate sheets, whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets, shields, joints, wire in sides, but containing one or more of the following materials, namely rolled gold or gold plated wire and/or components aluminium anodised sides, plastic nose pads, plastic tips.	28.5% (Twenty eight point five percent only) of the FOB value.
1927	Moulded spectacle frames/spectacles and sun goggles made from cellulose acetate moulding powder with or without lenses/glare glasses, whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets, shields, joints, wire in sides, gold plated wire and/or components aluminium anodised sides, plastic nose pads, plastic tips.	22.6% (Twenty two point six percent only) of the FOB value.
1928	Sides made from cellulose nitrate sheets.	24.5% (Twenty four point five percent only) of the FOB value.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-95/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना संख्या प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रमांक 1925—1928 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप-क्रमांक तथा प्रविष्टियां तत्काल प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
1925	लैम ग्लेयर ग्लाम सहित अथवा उसके बगैर, सेल्यूलोज नाइट्रेट चट्टों से बने चश्मों के फ्रेम/चश्मों तथा धूप के चश्मों, चाहे वे निम्नलिखित सामग्री अर्थात् कब्जे, रिबेट, शील्ड ज्वाइन्ट, पाशवों पर तार में से किसी एक से जुड़े हुए हों अथवा नहीं।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 25.2 प्रतिशत (केवल पच्चीस दशमलव दो प्रतिशत)
1926	लैम ग्लेयर ग्लाम सहित अथवा उसे बिना सेल्यूलोज नाइट्रेट चट्टों से बने चश्मों के फ्रेम/चश्मों तथा धूप के चश्मों, चाहे वे निम्नलिखित सामग्री अर्थात् कब्जे, रिबेट शील्ड, ज्वाइन्ट, पाशवों पर तार	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 28.5 प्रतिशत (केवल अट्ठाइस दशमलव पांच प्रतिशत)

(1)

(2)

(3)

से से किसी एक से जुड़े हो अथवा नहीं,
किन्तु जिनमें निम्नलिखित सामग्री अर्थात्
गोल्ड गोल्ड अथवा सोने का मुलम्मा
किया हुआ तार तथा/अथवा निर्माणक
पुर्जे, ऐल्यूमीनियम के एनोडीकृत पार्श्व,
प्लास्टिक नोज पैड, प्लास्टिक टिप से से
एक या एक से अधिक हो।

- 1927 लेक्स/ग्लेजर ग्लास सहित अथवा उनके बिना, पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 22.6
सेल्यूलोज एग्रेगेट मोल्डिंग पाउडर से प्रतिशत (केवल वार्डम दशमलव
बने चश्मे के डने हुए फ्रेम/चश्मे तथा छः प्रतिशत)
धूप के चश्मे, चाहे वे निम्नलिखित सामग्री
अर्थात् कब्जे, रिबेट, शील्ड, ज्वाइन्ट
पार्श्वों पर तार, सोने का मुलम्मा किया
हुआ तार तथा/अथवा निर्माणक हिस्से,
ऐल्यूमीनियम के एनोडीकृत पार्श्व प्ला-
स्टिक नोज पैड, प्लास्टिक टिप से से किसी
एक से जुड़े हुए हो अथवा नहीं।

- 1928 सेल्यूलोज नाइट्रेट चश्मों से बने पार्श्व । पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 24.5
प्रतिशत (केवल चौबीस दशमलव
पांच प्रतिशत)

No. DRAWBACK/PN/96/72.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/P. No. 602/270—DBK published in the Gazette of India Extra Ordinary dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. Drawback/PN—1 dated 15th October, 1971 :—

After Sub-Serial No. 4502 and the entries relating thereto, the following sub-serial number and the entries shall be inserted, namely :—

Sub-Serial No.	Description of goods.	Rate of drawback
4503	(1) Centrifugal and non-centrifugal pumps including turbine pumps.	Rs. 90/- (Rupees ninety only) per tonne.
	(2) Centrifugal and non-centrifugal pumps fitted with diesel engines.	1.5% (One point five percent only) of the FOB value.
	(3) Centrifugal and non-centrifugal pumps fitted with electric Motors.	4% (Four percent only) of the FOB value.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

B. N. RANGWANI,

Joint Director (Drawback).

स० प्रतिअदायगी/पी० एन०-96/72.—मीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 4502 तथा उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्रमांक तथा प्रविष्टिया अस्तित्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
4503	(1) अपकेन्द्री एवं अतःकेन्द्री पम्प जिन में टर्वाइन पम्प भी शामिल हैं।	प्रतिटन 90/- रुपये (केवल नब्बे रुपये)
	(2) अपकेन्द्री एवं अतःकेन्द्री पम्प जिन पर डीजल इंजन लगे हों।	पोत—पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)।
	(3) अपकेन्द्री एवं अतःकेन्द्री पम्प जिन पर बिजली के मोटर लगे हों	पोत—पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)

ऊपर बताये गये माल के संबंध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निश्चित सभी ब्रांड दरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने पर, वापस ले ली गयी समझी जायेगी।

बी० एन० रंगवानी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी)।

